



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श0)
(सं0 पटना 124) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

(सं0 2/सी0-10149/2007 का0-1868)
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प
18 मार्च 2009

श्री मनोज कुमार (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक-1473/04, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी सीतामढ़ी को सरकारी आदेश की अवहेलना करने एवं कर्तव्यहीनता संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9129 दिनांक 11.09.2007 के प्रभाव से निलंबित किया गया। श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर इसपर ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के मंतव्य प्राप्त किया गया। श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की सम्यक समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-326 दिनांक 27.01.2009 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया है।

2. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, स्पष्टीकरण एवं मंतव्य के समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-4 के आलोक में निम्नलिखित दण्ड संसूचित किया जाता है:-

- (1) असंचयात्मक प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि की रोक।
- (2) निलम्बन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा संबंधित पदाधिकारी को इसकी प्रति दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 124-571+10-डी0टी0पी0।